

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 — आषाढ़ 25, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2019

## अधिसूचना

क्रमांक 1914/722/22-1/2019. — छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन कक्ष क्र. एस 1-17, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

## संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में, -

नियम 39 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(2) किसी अभ्यर्थी को रिटर्निंग आफिसर द्वारा किये गये किसी प्रतीक का आवंटन अंतिम होगा, सिवाय उस दशा में जहां कि वह आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये आदेश या अनुदेशों से असंगत हो, ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत के पंच तथा सरपंच के निर्वाचन की दशा में जिला निर्वाचन अधिकारी, जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की दशा में संभागीय आयुक्त तथा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की दशा में राज्य निर्वाचन आयोग, प्रतीक के आवंटन का पुनरीक्षण ऐसी रीति से कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 3rd July 2019

NOTIFICATION

No. 1914/722/22-1/2019. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, which the State Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Deputy Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. S-1-17, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Atal Nagar, Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 39, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :-

“(2) Any symbol allotted by the returning officer to any candidate shall be final, except in such case where the order or guidelines issued by the commission in the regards differs, in such condition, in the case of election of Panch and Sarpanch of Gram Panchayat the District Election Officer, in the case of election of member of Janpad Panchayat the division commission and in case of election of member of Zila Panchayat the State Election Commission may review for allotment of symbol in such manner as they deemed fit.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JITENDRA KUMAR SHUKLA, Deputy Secretary.